



# HONDA

## Honda India Power Products Limited

Head Office & Works :  
Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)  
Greater Noida Industrial Development Area,  
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310  
Tel. : +91-120-2590 100  
Fax : +91-120-2590 350  
Website : www.hondaindiapower.com  
CIN : L40103DL2004PLC203950  
E-mail : ho.mgt@hspp.com

Ref: 522064/SE/65/2020-21

November 02, 2020

### Corporate Relationship Department

BSE Limited  
Registered Office: Floor 25, PJ Towers,  
Dalal Street,  
**Mumbai – 400 001**

### Listing Department

The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No. C/1, G- Block,  
Bandra Kurla Complex Bandra (E),  
**Mumbai – 400 051**

### Sub: Meeting of Board of Directors

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Regulations'), we enclose the copies of the Notice published in 'Financial Express' and 'Jansatta' on October 31, 2020 in connection with intimation for 5<sup>th</sup> Meeting of Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21, pursuant to Regulation 29(1) and 47 of the Regulations.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly,  
**For Honda India Power Products Limited**

  
**Sunita Ganjoo**  
**Company Secretary and Compliance Officer**



*Encl. As above*

**Honda India Power Products Limited**

(Formerly Honda Siel Power Products Limited)

Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025



**J&K Bank**  
The Jammu And Kashmir Bank  
Information Security Department  
Corporate Headquarters  
M.A.Road, Srinagar 190001 (J&K)

**e-RFP Notice (e-NIT)**  
for  
**Syantec Data Leakage Prevention (DLP) Licenses Renewal / Procurement and Annual Maintenance**

Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from and Bids can be submitted on the Banks' e-Tendering Service Provider Portal <https://eauction.auctiontiger.net> w.e.f **October 31, 2020 10.00 Hrs.** Tender Document can also be downloaded from Bank's Official Website [www.jkbank.com](http://www.jkbank.com). Last date for submission of Bids is **November 21, 2020, 17.00 Hrs.**

e-RFP Ref. No.: JKB/IS/AV/2020-137  
Dated: 28-10-2020

**VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED**  
Registered Office : 203/204, "A" Wing, 2nd Floor, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sector 22, West 21st, Mumbai 400 015  
CIN: U65922MH2009PLC272501 Tel: 022 2419 0911 Website : [www.vastuhfc.com](http://www.vastuhfc.com)

**EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020** (Rs. in lakh)

Sr. No.	Particulars	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2020 (Audited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations	14,706.67	12,919.55	25,047.40
2	Net Profit / (Loss) before Tax	5,668.15	6,765.64	11,939.66
3	Net Profit / (Loss) after Tax	4,236.66	4,879.65	9,224.81
4	Paid-up Equity Share Capital	51,845.53	51,795.53	51,845.53
5	Reserves excluding Revaluation Reserves	41,455.05	32,394.83	36,847.02
6	Net Worth	93,300.58	84,190.35	88,692.55
7	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	1,53,076.75	1,01,474.92	1,29,181.01
8	Debt Equity Ratio	1.62	1.21	1.46
9	*Debt Service Coverage Ratio	0.64	2.84	1.41
10	**Interest Service Coverage Ratio	1.89	2.31	2.08
11	Earnings Per Share (of Rs.100/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	- Basic	8.17	9.84	18.20
	- Diluted	8.08	9.68	17.96

\* Debt Service Coverage Ratio = [(Earnings before interest, depreciation and tax for the year) + (Principal collected from Customers during the year)] / (Interest Expense for the year) + (Principal repaid of the borrowings during the year)

\*\* Interest Service Coverage Ratio = Earnings before Interest and Tax / Interest Expense

**Notes:**  
a) The above is an extract of the detailed format of half yearly / annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the half yearly / annual financial results are available on the websites of BSE Limited and the Company at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.vastuhfc.com](http://www.vastuhfc.com) respectively.  
b) For the items referred in sub-paragraphs (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the pertinent disclosures are available on the website of BSE Limited and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
c) Figures of the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period's classification / disclosure.

For Vastu Housing Finance Corporation Limited  
Sd/-  
Sandeep Menon  
Managing Director  
(DIN2032154)

Place: Mumbai  
Date: October 30, 2020

**SKYWEB INFOTECH LIMITED**  
CIN: L72200DL1985PLC019783  
Registered Office: K-20, 2<sup>nd</sup> Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110 024  
Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Wing-A, Sector-126, Noida, Uttar Pradesh-201301  
E-mail id: [info@skywebindia.in](mailto:info@skywebindia.in)  
Ph. No. 0120-6726800

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 11<sup>th</sup> Day of November, 2020, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The said information may be accessed on the website of the Company at [www.skywebindia.in](http://www.skywebindia.in) and Stock Exchange website at [www.mseil.in](http://www.mseil.in).

By Order of the Board  
Skyweb Infotech Limited  
Sd/-  
Deepesh Gupta  
Date: October 30, 2020 Whole Time Director  
Place: Noida (U.P.) & CFO

**HONDA**  
Honda India Power Products Limited  
(Formerly Honda Ltd Power Products Limited)  
CIN: L40103DL2004PLC203950  
Registered Office: 409, Tower B, DLF Commercial Complex, Jasola, New Delhi - 110025  
Website: [www.hondaindia.com](http://www.hondaindia.com)  
E-Mail: [ho.legal@hsppl.com](mailto:ho.legal@hsppl.com) | Phone: +91-011-41082210

**COMPANY NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29(1) and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that 5<sup>th</sup> meeting of Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 will be held on November 11, 2020 to consider and approve, inter-alia, Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

This information is also available on website of the Company ([www.hondaindia.com](http://www.hondaindia.com)), BSE Ltd. ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Ltd. ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

By order of the Board  
for Honda India Power Products Limited  
Sd/-  
Sunita Ganjoo  
Company Secretary

Date: 30.10.2020

**KALYANI INVESTMENT COMPANY LIMITED**  
CIN : L65993PN2009PLC134196  
Regd. Office : Mundhwa, Pune 411 036  
Tel.: +91 20 66215000 Fax : +91 20 26821124  
Email : [investor@kalyani-investment.com](mailto:investor@kalyani-investment.com)  
Website : [www.kalyani-investment.com](http://www.kalyani-investment.com)

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, November 9, 2020, inter-alia, to consider and approve Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The above information is available on the Company's website viz. [www.kalyani-investment.com](http://www.kalyani-investment.com) and also available on the websites of Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

Pune Akshay Chikodkar  
October 30, 2020 Company Secretary

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: [oracle\\_credit@yahoo.co.in](mailto:oracle_credit@yahoo.co.in), [info@oraclecredit.co.in](mailto:info@oraclecredit.co.in)  
Website: [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in) Phone: 011- 26167775

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year Ended September 30, 2020** (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	8.87	16.94	6.71
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.52	11.13	3.79
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.52	11.13	3.79
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.13	8.33	3.05
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.13	8.33	3.05
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055
	2. Diluted	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055

**Notes:**  
1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in).  
2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective Meeting(s) held on 30-Oct-20.

By the Order of the Board  
For Oracle Credit Limited  
Sd/-  
Ashok Kumar Jain  
Managing Director

Place: New Delhi  
Date: 30.10.2020

**INDIA GLYCOLS LIMITED**  
Regd. Off: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kastur - 244710, Dist. Ludhiana, Punjab, India.  
Phone: 0161-4564605, Fax: 0161-4564601, Email: [compliance.officer@india glycols.com](mailto:compliance.officer@india glycols.com)  
Website: [www.india glycols.com](http://www.india glycols.com)  
CIN: L24111UR1985PLC000907

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 9<sup>th</sup> November, 2020 to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020.

The information is also available on the Company's website at [www.india glycols.com](http://www.india glycols.com) and the website of the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed viz. BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

For India Glycols Limited  
Sd/-  
Ankur Jain  
Company Secretary

Place: Noida, U.P.  
Date: 30-10-2020

**SBI STATE BANK OF INDIA**  
REGD OFF: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kastur - 244710, Dist. Ludhiana, Punjab, India.  
Phone: 0161-4564605, 4564602, 4564601, FAX No. 0161-4564616, EMAIL : [sbi.15631@sbi.co.in](mailto:sbi.15631@sbi.co.in)

**E-AUCTION SALE NOTICE**  
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES ON 09.12.2020, 11.00 HRS. TO 13.00 HRS. LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD & DOCUMENTS ALONG WITH DEMAND DRAFT (HARD COPY) 07.12.2020, 16:00 Hrs. LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD & DOCUMENTS (ON LINE) 08.12.2020, 16:00 Hrs.

The undersigned as Authorised Officer of State Bank of India has taken over possession of the following property/ies under Section 13(4) of the SARFAESI Act. Public at Large is informed that E auction (under SARFAESI Act, 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE TO THE BANK."

Name of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Amount Outstanding	Details of property/ies	Reserve Price		Date & Time of inspection of property	Date/ Time of e-Auction
			EMD Bid Increase Amt.	Final Bid		
M/s F M Hammerle Textile Limited (Borrower) Late Sh. Ashok Oswal S/o Sh. Rattan Chand (Guarantor)	Rs. 118,13,73,941.56 and interest Rs. 62,26,80,382.44 (Total Rs. 180,40,54,324.00) till 13.05.2018 plus penal interest. Demand Notice date : 14.05.2018 Possession Notice date: 20.02.2020	LOT : 1. Flat No. B- 1/20, Second Floor, measuring 595 Sq. Yards, situated at Vasant Vihar, New Delhi, owned by Late Sh. Ashok Oswal s/o Sh. Rattan Chand vide sale deed No. 3549 dated 14.03.2006	Rs. 10.17 Crore to Rs. 1.02 Crore	Rs. 0.50 Lacs	03.12.2020, 12.00 Hrs. to 13:00 Hrs.	09.12.2020, 11.00 Hrs. to 13:00 Hrs.
Smt Rakhi Oswal W/o Sh. Adish Oswal (Guarantor)	Rs. 2,00,00,000/- + interest & other charges Demand Notice date : 14.05.2018 Possession Notice date: 12.02.2019	LOT : 2. Plot no. 147-G, South City, Barewal Awana, Canal Road, Ludhiana measuring 5100 sq. Yards vide vaska no. 17024 dated 03.02.2012 standing in the name of Smt. Rakhi Oswal W/o Sh. Adish Oswal.	Rs. 1.06 Crore to Rs. 10.60 Lacs	Rs. 0.50 Lacs	04.12.2020, 12.00 Hrs. to 13:00 Hrs.	09.12.2020, 11.00 Hrs. to 13:00 Hrs.

**THIS PUBLICATION IS ALSO 30 DAYS NOTICE UNDER RULE 6 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 TO THE ABOVE BORROWERS & GUARANTORS**

**TERMS & CONDITIONS:** The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE TO THE BANK" will be conducted, "Online". The auction will be conducted through Bank's approved service provider: M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Auctiontiger), Ahmedabad. Contact persons: Mr. Vivek Kachariya, Mob. No.: 9081830222, E-Mail: [vivek@auctiontiger.net](mailto:vivek@auctiontiger.net), Mr. Sachin Sharma, Mob. No. 9988137576, E-mail: [sachin.sharma@auctiontiger.net](mailto:sachin.sharma@auctiontiger.net), [punjab@auctiontiger.net](mailto:punjab@auctiontiger.net), [landline@auctiontiger.net](mailto:landline@auctiontiger.net) +91 079-68136880/881/837/842, Fax No. 079-40016876/816, E-Mail: [support@auctiontiger.net](mailto:support@auctiontiger.net), (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with <https://www.auctiontiger.net>) through Login ID & Password. The EMD will be payable through NEFT/ RTGS in the following Account: 35132004256, Name of the A/C : SBI SAMB LHD EMD AUCTION A/c, IFSC Code: SBIN0015631, Please note that the Banker Cheque/ Demand Draft should be payable at Ludhiana in favour of Authorised Officer, State Bank of India, SAMB Ludhiana & shall be submitted at SAMB, Ludhiana with HARD COPY on or before 07.12.2020 before 16.00 Hrs & through ONLINE on or before 08.12.2020 before 16.00 Hrs. To the best of the knowledge & information of the Authorised Officer, there is no encumbrances on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms & conditions of the e-auction are published in the following website: <https://www.auctiontiger.net>  
Note : The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and he has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction without assigning any reason thereof.

PLACE : LUDHIANA AUTHORIZED OFFICER, STATE BANK OF INDIA  
DATE : 31.10.2020

**SHIVALIK SOLID WASTE MANAGEMENT LIMITED**  
CIN: U33130HP2005PLC028806  
Registered Office: VILLAGE MAJRA, P.O. DABHOTI NALGARH HP 174101  
Corporate Office: SCO 20-21, 1ST FLOOR NEAR DOLPHIN HOTEL, HALKA SHIMLA HIGHWAY DHAKOLI 148993 PB

**NOTICE** is hereby given that the Certificate for the under mentioned Equity Shares of the Company have been lost / misplaced and the holder of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Share Certificate.

Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge the same with the Company at its Corporate Office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate to the aforesaid applicants without any further intimation.

Folio No.	No. of Shares Held	Certificate No.	7965351 to 7967850
344	2500	356	

Place: Chandigarh  
Date: 30.10.2020  
Preet Remedies Private Ltd.  
Plot No 194-195, 3rd Floor  
Industrial Area Phase II, Chandigarh-160002

**Union Mutual Fund**  
Union Asset Management Company Private Limited  
Investment Manager for Union Mutual Fund  
Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201  
Registered Office: Unit 503, 5<sup>th</sup> Floor, Leela Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059  
• Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268; • Non Toll Free. 022-67483333;  
• Fax No: 022-67483401; • Website: [www.unionmf.com](http://www.unionmf.com); • Email: [investorcare@unionmf.com](mailto:investorcare@unionmf.com)

**NOTICE CUM ANNOUNCEMENT TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF UNION MEDIUM DURATION FUND**  
Change in Exit Load of Union Medium Duration Fund.  
Unit holders / Investors are requested to note that the Exit Load of Union Medium Duration Fund, an open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 to 4 years (please refer to the page no. 36 of the SID on which the concept of Macaulay Duration has been explained), shall stand revised as under with effect from **November 04, 2020** ("the Effective Date"):

Name of the Scheme	Existing Exit Load	Revised Exit Load
Union Medium Duration Fund	Upto 15% of the units allotted may be redeemed / switched out or any exit load. Any redemption / switch out in excess of 15% of units allotted shall be subject to the following exit load. Redemption of units would be done on First in First Out basis (FIFO): • 1% if redeemed or switched out on or before 365 days from the date of allotment. • Nil if redeemed or switched out after 365 days from the date of allotment.	1% if units are redeemed or switched out on or before completion of 15 days from the date of allotment. Nil thereafter.

Unit holders are requested to note that the revised Exit Load as mentioned hereinabove shall be applicable on prospective investments only i.e. investments made in the Scheme(s) from the Effective Date.  
The SID and KIM of the aforementioned Scheme of Union Mutual Fund will stand modified to the extent mentioned above.  
This Standalone and an integral part of the SID and KIM of the aforementioned Scheme.  
All other terms and conditions of the SID and KIM of the aforementioned Scheme of Union Mutual Fund will remain unchanged.

For Union Asset Management Company Private Limited  
(Investment Manager for Union Mutual Fund)  
Sd/-  
Date: Mumbai  
Date: 30.10.2020  
Authorised Signatory

**MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.**

**Statutory Details:** Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc; Trustee: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.  
Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centres/distributors as well as from our website [www.unionmf.com](http://www.unionmf.com).

**ESCORTS FINANCE LIMITED**  
Regd. Office : SCO 64-65, Third Floor, Sector-17A, Chandigarh-160017  
CIN : L65910CH1987PLC033652 | Phone: 0129-2564116  
Email: [escortsfinance@escorts.co.in](mailto:escortsfinance@escorts.co.in) | Website: [www.escortsfinance.com](http://www.escortsfinance.com)

**EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2020** (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Six Months ended		Year ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	
1	Total income from Operations	20.09	0.08	6.11	20.17	26.23	50.30
2	Net Profit/(loss) for the period ( before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.19	(5.89)	(5.35)	7.30	7.29	14.00
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.19	(5.89)	(5.35)	7.30	7.29	14.00
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.19	(5.89)	(5.35)	7.30	7.29	14.00
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital	19.76	(2.68)	(9.58)	17.08	0.73	0.20
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	4017.25	4017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25	4,017.25
7	Other Equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	(21,867.14)
8	Earnings per share (of Rs.10/- each) for the period ( not annualised): Basic & Diluted (in Rs.)	0.0328	(0.0147)	(0.0133)	0.0182	0.0181	0.0348

**Notes:**  
1 The above Standalone Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 30 October 2020.  
2 The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs.  
3 The Company has a single reportable segment namely financial services (limited to recovery of loan assets) for the purpose of Ind AS-108.  
4 M/s Escorts Benefit Trust (EBT) in terms of the directions of Hon'ble Delhi High Court to repay the unpaid fixed deposit liability, maintains adequate funds to repay the unclaimed unpaid fixed deposit liability. No claim has been settled by EBT during the quarter ended on 30 September 2020. The remaining liability towards unclaimed fixed deposits and interest thereon is Rs. 1069.84 lacs as on 30 September 2020 (Rs.1069.84 lacs as on 30 June 2020).  
5 Reference Tax Assets has not been recognised in the books of account as there is no virtual certainty of future taxable income.  
6 Response to auditor's qualifications on the financial results for the quarter and six month ended 30 September 2020:  
(a) Remaining liabilities towards unclaimed matured fixed deposit and interest thereon is Rs.1069.84 lacs as on 30 September 2020 and the same is pending for disposal in Investor Education & Protection Fund.  
Complete facts have been disclosed in Note 4 above which is self explanatory and does not call for any further comments.  
7 The Company had accumulated losses as at the close of six month ended 30 September 2020 which is nil net worth continuing to stand fully eroded. The Company continues to focus on recovery of old delinquent loan assets through settlement/ compromise /legal action etc. arising out of its earlier NBFC business. The management is also considering various options to undertake sustainable business(es) and therefore the accounts have been prepared on a Going Concern Basis.  
8 The Company had issued 10% Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs. 10 each maturing on 30 March 2019. Due to liquidity crunch, the discharge of the said liability before or on due date of redemption has not been done. The Company has received a No Objection Certificate from the preference share holder extending the maturity period of said Preference Shares for a further period of 20 years. Accordingly, the Company has filed a petition before National Company Law Tribunal (NCLT) on 29 March 2019 seeking issuance of 1% Cumulative Redeemable Preference Shares in place of said Preference Shares with new terms and conditions. This aforesaid matter is pending for hearing before NCLT.  
9 The outbreak of Coronavirus disease (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The management has considered the possible effects that may result from the pandemic on the carrying amount of receivables, loans/advances, investments and other assets / liabilities. Based on the current indicators of future economic conditions, the management expects to recover the carrying amount of these assets. However, the management will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.  
10 The figures for the previous period have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.  
11 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly & Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.escortsfinance.com](http://www.escortsfinance.com).

By Order of the Board  
For Escorts Finance Limited  
Rajeev Khanna  
Whole Time Director  
DIN 08471497

Place: Faridabad  
Date: 30 October 2020



**GOLKONDA ALUMINIUM EXTRUSIONS LIMITED**  
(Formerly known as Alumeco India Extrusion Limited)  
Regd. Office: A-2/78-B, Keshav Puram, New Delhi - 110035, India

**NOTICE**

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 9<sup>th</sup> November, 2020 at New Delhi, to consider and take on record, inter alia, the unaudited financial results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020.

For Golkonda Aluminium Extrusions Limited  
Place: New Delhi Sd/-  
Date: 30<sup>th</sup> October, 2020 Whole-time Director

## 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा)।

15वां वित्त आयोग 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नौ नवंबर को सौंपेगा। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में यह कहा गया है।

आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने रिपोर्ट पर शुक्रवार को अपना विचार विमर्श पूरा कर लिया। सिंह व आयोग के अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। आयोग के अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा, अनुप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद शामिल हैं।

# आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा)।

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर

रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट करने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2021 होगी।

नागिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रफ्त दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लेकिन अभी इस

बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है, जिनके कर का ऑडिट होता है। कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे धिक्का रही है। पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था।

## सोने में 268, चांदी में 1,623 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में सुधार के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना शुक्रवार को 268 रुपए तेज रहा। यह 50,812 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बढ़ हुआ।

इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बढ़ हुआ था। एचडीएफसी सिक्कोरिजटी ने जानकारी दी कि लिवाली बढ़ने से चांदी की कीमत में भी 1,623 रुपए का उछाल रहा। इसका भाव 60,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया।

## वैश्विक संकेतों से बाजार में गिरावट, सूचकांक 136 अंक लुढ़का

मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा)।

यूरोप में कोविड-19 के मामले बढ़ने और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले व्यापक अनिश्चिता से वैश्विक बाजारों में गिरावट का रुख रहा। वैश्विक संकेतों से शुक्रवार को सूचकांक और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। बिकवाली से सूचकांक 136 अंक और निफ्टी में 28 अंक घटकर बढ़ हुए। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 प्रमुख शेयरों पर आधारित सूचकांक दिन में 746 अंक तक की घट-बढ़ के बाद अंत में पिछले दिन के मुकाबले 135.78 अंक यानी 0.34 फीसद गिरकर 39,614.07 अंक पर बढ़ हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 28.40 अंक यानी 0.24 फीसद गिरकर 11,642.40 अंक पर बढ़ हुआ। बीएसई सूचकांक में शामिल शेयरों में भारती एयरटेल में सबसे ज्यादा 3.82 फीसद का नुकसान हुआ। मारुति, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के शेयरों में भी गिरावट रही।

## घरेलू उद्यमियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा भारत : राजीव

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा)।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और घरेलू उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए यथासंभव बेहतर परिवेश उपलब्ध कराएंगे। एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित करते समय अपना भरोसा उन इकाइयों में दिखाएंगे, जिन्होंने पहले से भारत में निवेश कर रखे हैं। कुमार ने कहा कि सरकार निजी उद्यमियों को हर संभव मदद देने के साथ ही अवसर प्रदान करेगी।

उद्योग मंडल फिक्की के 'ऑनलाइन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था

## शुक्रवार डेडिया लिमिटेड

CIN: L67190DL1979PLC009555

पंजीकृत कार्यालय: 4.5 किमी, भोपा रोड, गुजफरनगर-251001, उत्तर प्रदेश

ई-मेल: [quasarindia123@gmail.com](mailto:quasarindia123@gmail.com)

वेबसाइट: [www.quasarindia.in](http://www.quasarindia.in)

शुक्रवार डेडिया लिमिटेड

सेबी (स्वीकृत दाखिल तथा उद्घाटन अर्पण) दिनांक: 9 नवंबर, 2020 को 4.50 बजे, अद्यतन प्लान, सेक्टर-14, गौरीगाँव, नई दिल्ली-110085

मंडल को संयोजित करने के लिए कम्पनी के अनेक निवेशकों ने सहमत होकर 30 अक्टूबर, 2020 को 11.30 बजे पूर्ण, मंजूर किया गया है।

इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी को वेबसाइट [www.quasarindia.in](http://www.quasarindia.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से व्यवहार इंडिया लिमिटेड के द्वारा

हस्ता./- गुल्मोहार इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली किशन मिश्रा (निदेशक)

दिनांक: 29.10.2020

DIN: 02591868

**शाकुम्भरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड**  
सीआईएन: U21012UP1988PL0007871  
पंजीकृत कार्यालय: 4.5 किमी, भोपा रोड, गुजफरनगर-251001, उत्तर प्रदेश  
ई-मेल: [shakumbhripapereg@gmail.com](mailto:shakumbhripapereg@gmail.com) I सम्पर्क नं.: 9548493030  
वेबसाइट: [www.shakumbhripulp.com](http://www.shakumbhripulp.com)

एलएडए सूचना दी जाती है कि सेबी (स्वीकृत दाखिल एवं प्रकटन अर्पण) दिनांक: 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अनुपूरक वित्तीय विवरणों को वेबसाइट [www.shakumbhripulp.com](http://www.shakumbhripulp.com) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट [www.mse.in](http://www.mse.in) पर उपलब्ध है।

शुक्रवार डेडिया लिमिटेड  
हस्ता./- आरुण अग्रवाल  
निदेशक  
स्थान: गुजफरनगर  
दिनांक: 30.10.2020  
सीआईएन: 06441664

**NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED**  
CIN: L51909DL1984PLC019485  
9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006  
Email ID: [cs@necgroup.com](mailto:cs@necgroup.com), Tel No: 011-23517516-19

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, November 11, 2020** inter-alia to consider and approve unaudited Financial Results of the Company for the second quarter ended September 30, 2020. Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 as amended from time to time, the "Trading Window" is already closed from Thursday, October 1, 2020. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of unaudited Financial Results of the Company. The period of closure of Trading Window is from Thursday, October 1, 2020 to Friday, November 13, 2020 and Trading Window will open with effect from Saturday, November 14, 2020.

The information is also available on the Website of the Company [www.necgroup.com](http://www.necgroup.com) and on the website of Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

On behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
(Sunil Kumar Jain)  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00010695

Date: 30.10.2020  
Place: Delhi

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: [oracle\\_credit@yahoo.co.in](mailto:oracle_credit@yahoo.co.in), [info@oraclecredit.co.in](mailto:info@oraclecredit.co.in)  
Website: [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in) Phone: 011-46217775

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year Ended September 30, 2020**

Sl. No.	Particulars	(Rs. In lacs)		
		Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	8.87	16.94	6.71
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.52	11.13	3.79
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.52	11.13	3.79
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4.13	8.33	3.05
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.13	8.33	3.05
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
1.	Basic	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055
2.	Diluted	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055

**Notes:**

1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in).

2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 30-Oct-20.

For the Order of the Board  
By Oracle Credit Limited Sd/-  
Ashok Kumar Jain  
Managing Director

Place: New Delhi  
Date: 30.10.2020

**PC Jeweller Limited**  
Regd. Off: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092  
Phone: 011-49714971, Website: [www.pcjeweller.com](http://www.pcjeweller.com)  
Fax: 011-49714972, E-mail: [info@pcjeweller.com](mailto:info@pcjeweller.com)  
Corporate Identity Number: L36911DL2005PLC134929

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, November 9, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2020.

In view of the same in terms of the Company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders", Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. September 30, 2020 and shall remain closed till November 11, 2020.

This Notice is available on BSE Limited website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), National Stock Exchange of India Limited website ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on the Company's website ([www.pcjeweller.com](http://www.pcjeweller.com)) under the Investors section.

For PC Jeweller Limited Sd/-  
(SANJEEV BHATIA)  
Chief Financial Officer

Place: Delhi  
Date: 30/10/2020

**infoedge इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड**  
CIN: L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालय: जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19  
कांफो. कार्यालय: बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) | टेली: 0120-3082000; फैक्स: 0120-3082095  
वेबसाइट: <http://www.infoedge.in/>; ई-मेल: [investors@naukri.com](mailto:investors@naukri.com)

**सूचना**

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी की जा रही है। नियमावली में अन्य बातों के अलावे आईईपीएफ प्राधिकरण में अग्रदत्त अथवा दावा-रहित लाभांश के आईईपीएफ में अंतरण तथा ऐसी शेयरों के अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभांश अग्रदत्त अथवा दावा-रहित रहा है।

नियमावली में निर्दिष्ट विभिन्न अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए कम्पनी ने उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये उक्त नियमावली के अंतर्गत संबंधित ऐसे शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित कर दिया है जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना नियत है। ऐसे शेयरधारकों के विवरणों को भी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् [www.infoedge.in](http://www.infoedge.in) पर भी अपलोड कर दिया गया है। अतः संबंधित शेयरधारकों से आग्रह है कि यथाशीघ्र अपने दावा-रहित लाभांश का दावा करें अन्यथा उपयुक्त तिथि में ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जायेगा।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, यह भी ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र (जों) की जगह डुप्लिकेट शेयर जारी करेगी तथा उसे जारी करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा वे निष्प्रावी हो जायेंगे तथा डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी डिपॉजिटरीज को कॉर्पोरेट कार्रवाई के रूप में इस प्रकार का उपयुक्त निर्देश देगी ताकि डिपॉजिटरीज आईईपीएफ प्राधिकरण को डीमैट खाता में उक्त शेयरों को अंतरित करने में सक्षम हो सके।

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि वेबसाइट या कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (जों) को जारी करने के संदर्भ पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

कृपया ध्यान रहे कि पहले से अंतरित दावा-रहित अथवा अग्रदत्त लाभांश अथवा ऐसी शेयरों पर उपचलित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में कम्पनी द्वारा अंतरित की जा रही शेयरों को शेयरधारक उसकी वेबसाइट अर्थात् <http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html> पर गई प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। पुनः कम्पनी के पास पड़ी दावा-रहित लाभांश का दावा करने अथवा यदि आपको किसी जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे आरटीए: मै. लिंक इन्डिया इंडिया प्रा. लि., नवल हार्ट्स, 1ला तल, प्लॉट एनए-2, सी-1, ब्लॉक एलएफएस, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेली: 011-41410592, ईमेल: [ieps.shares@linkintime.com](mailto:ieps.shares@linkintime.com) को लिखें अथवा संपर्क करें।

कृपया अपने सभी पत्राचारों में निम्न विवरणों को दें: 1. कंपनी का नाम 2. फोलियो नं. अथवा डीपी तथा क्लाइंट आईडी, 3. शेयर धारक का नाम 4. संपर्क नं. 5. ई-मेल आईडी साथ ही शेयरधारक अपना स्वतः सत्यापित केवाईडी दस्तावेजों जैसे पैन, पते के प्रमाण के रूप में नवीनतम उपयोगिता बिल के साथ निरस्त बैंक लीफ भी उपलब्ध कराएं।

निदेशक मंडल के आदेश पर, इन्फो एज (इंडिया) लि. के लिए (एम एम जैन)  
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2020  
स्थान: नोएडा

**HONDA**  
होन्डा इण्डिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड  
(पूर्व में होन्डा रिपल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड)  
सीआईएन: L40103DL2004PLC203950  
पंजीकृत कार्यालय: 409, टॉवर बी, डीएलएफ कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, जवाला, नई दिल्ली-110025  
वेबसाइट: [www.hondaindiapower.com](http://www.hondaindiapower.com)  
ई-मेल: [ho.legal@hssp.com](mailto:ho.legal@hssp.com) | दूरभाष: +91-01141082210

**कम्पनी सूचना**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (स्वीकृत दाखिल एवं प्रकटन अर्पण) दिनांक: 2015 के विनियम 29(1) तथा 47 के अनुसार एलएडए सूचना दी जाती है कि अन्य मटों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखणीय वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की 31<sup>वीं</sup> बैठक 11 नवंबर, 2020 को आयोजित की जायेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट ([www.hondaindiapower.com](http://www.hondaindiapower.com)), बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार  
कुने होन्डा इण्डिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड  
हस्ता./- सुनीता गंधी  
कम्पनी सचिव

**HERO**  
पंजीकृत कार्यालय: 7 थर्ड फ्लोर, प्लॉट नं.2, नेक्शन मंडेला रोड, वसंत कुंज फेज-II, नई दिल्ली-110070  
CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220  
फैक्स: 011-46044399 | ईमेल: [secretarial@heromotocorp.com](mailto:secretarial@heromotocorp.com)  
वेबसाइट: [www.heromotocorp.com](http://www.heromotocorp.com)

**दुर्घटित शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना**

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ("कंपनी") के मूल श्रेणियों के शेयरों को खरीदने के लिए सूचना दी जाती है कि मूल श्रेणियों के शेयरों (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी हो गए हैं। नई दिल्ली में, एच.रो. मोटोकॉर्प लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए हैं। कंपनी उनके पत्र नं. 2 के अनुसार उनके पत्र नं. 2 के अनुसार प्रमाणपत्र (अंतिम मूल नं. 2) के अलावा मूल श्रेणियों के शेयरों को खरीदने के लिए सूचना दी जाती है।

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	अंतिम मूल्य	दिनांक/दिनांक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
HMLD140971	रीना गुप्ता	₹.2/-	161094766 - 161094890	519541	125
	विनाय गुप्ता	₹.10/-	19528675 - 19528694 19528695 - 19528699	295993 295994	20 05

किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य हेतु दुर्घटित शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आग्रह है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी "सचिवीय विवरणों" को प्रेषित करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल [secretarial@heromotocorp.com](mailto:secretarial@heromotocorp.com) पर भेजे। इस सूचना, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख श्रेणियों के शेयरों को खरीदने के लिए सूचना दी जाती है।

कुने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड  
हस्ता./- नीता गंधी  
कम्पनी सचिव एवं मूल अनुपालन अधिकारी

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: [oracle\\_credit@yahoo.co.in](mailto:oracle_credit@yahoo.co.in), [info@oraclecredit.co.in](mailto:info@oraclecredit.co.in)  
Website: [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in) Phone: 011-46217775

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year Ended September 30, 2020**

Sl. No.	Particulars	(Rs. In lacs)		
		Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	8.87	16.94	6.71
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.52	11.13	3.79
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.52	11.13	3.79
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4.13	8.33	3.05
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4.13	8.33	3.05
6.	Equity Share Capital	555.00	555.00	555.00
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
1.	Basic	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055
2.	Diluted	Rs.0.074	Rs.0.150	Rs.0.055

**Notes:**

1. The above is an extract of detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's Website at [www.oraclecredit.co.in](http://www.oraclecredit.co.in).

2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on 30-Oct-20.

For the Order of the Board  
By Oracle Credit Limited Sd/-  
Ashok Kumar Jain  
Managing Director

Place: New Delhi  
Date: 30.10.2020

**Pimpri Chinchwad New Township Development Authority, Akurdi, Pune-411044.**

**PIECC E-Tender Notice No - 02/2020-2021 (1<sup>st</sup> Call)**

Online Tenders are invited from eligible Contractors having relevant experience, for the work of "Project Management Consultancy Services for the work of Construction of Pune International Exhibition and Convention Centre, Moshi, Pune (Phase II). Format of Tender is available on [www.pcntda.org.in](http://www.pcntda.org.in) or <http://mahatenders.gov.in> from date 31/10/2020 (10.00 am) to date 25/11/2020 (16.55 pm). Received Tender shall be opened on date 27/11/2020 by 15.00 pm

Sd/-  
Chief Executive Officer  
Pimpri Chinchwad New Township Development Authority, Akurdi, Pune-411044.

**Aro granite industries Ltd.**  
(100% Export Oriented Unit)  
CIN: L74899DL1984PLC031510  
Regd. Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110025  
Ph.: 011-41686169, Fax: 011-26941964, Email: [investorgrievance@arogite.com](mailto:investorgrievance@arogite.com), Website: [www.arogite.com](http://www.arogite.com)

**EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30th SEPTEMBER 2020**

Sl. No.	Particulars	(Rs. In lacs)		
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended
		30.09.2020 Audited	31.03.2020 Audited	30.09.2019 Audited
1	Total Income from operations	4,674.02	17,770.99	4,330.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	276.59	517.35	45.30
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	276.59	517.35	45.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	188.92	360.62	7.73
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	188.74	327.35	3.95
6	Paid up Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00
7	Reserves (excluding Retention Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		16618.68	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
1.	Basic:	1.23	2	